



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1931 (श०)
(सं० पटना 396) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जुलाई 2009

सं० एन/गृह-कोषांग-74-09/2009-111
गृह (विशेष) विभाग

संकल्प
5 जून 2009

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक की अवधि में प्रजातंत्र के अस्तित्व को बचाने एवं जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु चलाये गये आंदोलन में भाग लेने वाले वैसे व्यक्तियों जो उक्त आंदोलन के दौरान मीसा एवं डी0आई0आर0 में एक माह से छः माह तक तथा छः माह से अधिक निरुद्ध रहे हैं को क्रमशः 2500/- (दो हजार पांच सौ) रूपया एवं 5000/- (पांच हजार) रूपया मासिक "सम्मान पेंशन" एवं संदर्भगत अवधि में इसी कोटि के जेल में मृत एवं पुलिस फायरिंग में मारे गये व्यक्तियों के पति/पत्नी को 5000/- (पांच हजार) रूपया मासिक सम्मान पेंशन एवं पुलिस फायरिंग में गोली से घायल व्यक्तियों को 2500/- (दो हजार पांच सौ) रूपया मासिक सम्मान पेंशन देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

उपर्युक्त कोटि के व्यक्तियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में राज्य के अन्दर मुफ्त यात्रा की सुविधा, राज्य सरकार के अस्पतालों एवं सी0 जी0 एच0 एस0 से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी अस्पतालों तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित गैर सरकारी अस्पतालों में स्वयं पति/पत्नी की चिकित्सीय सुविधा तथा पहचान पत्र की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

1. यह योजना "जे0 पी0 सम्मान योजना" कहलायेगी। यह योजना दिनांक 1 जून 2009 से प्रभावी होगी।
2. एक माह से कम अवधि के लिए कारागार में रहे अथवा भूमिगत रहे व्यक्तियों तथा आंदोलन में योगदान करनेवाले अन्य व्यक्तियों का चयन सलाहकार पर्वद की अनुसंशा पर किया जा सकेगा। चयनित व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह दिया जा सकेगा।
3. ऐसे सेनानी जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है किन्तु सलाहकार पर्वद की नजर में ज्ञात सेनानी हैं उन्हें भी पर्वद की अनुसंशा पर प्रस्तावित सुविधा देने की पेशकश की जा सकेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा गठित "सलाहकार पर्वद" औचित्यपूर्ण कारणों से देर से समर्पित करने वाले आवेदकों के दावे एवं जिन लोगों ने आवेदन पत्र विहित अवधि में समर्पित किया है, उनके द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निस्तार एवं एतद् संबंधी अन्य समस्याओं के निदान हेतु आगे कार्य कर सकेगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष/सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित किया जाय एवं संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में आज ही प्रकाशित किया जाय। इसकी प्रतियां सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय प्रकाश मंडल,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 396-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>